

मेड्सु

परिस्थितिया

प्रकृतिया एलाग



केलाचि पेन्नि चैतोनाइ समझु

एप्रिल 2026

प्रकाशन - 10

ओपरोल लेक

मोरोक स्तर - चोटमोकलू तिनीई जानवरलू (शाकाहारी): मोरोक स्तर आ जानवरलदी ओढदि एई चोटमोकलू तटोओइ। ईइ शाकाहारी आटोओलू। एलगु ओदू,मेका,लेडी, सोलपिलि माननी बाने पुरगलू। इ जानवरलू चोटल मोकलमेद निभर ओटोओइ। आई गेढि,आकलू,कायलू माननी सेनऊ तटोओइ। दिना बादलमेद आई आने जानवरलदि कुडू बानतोओइ। शाकाहारी जानवरलू प्रकृतिलोनी महत्वपूण भुमिकया निभेतनाइ। आइ चोटमोकलदि संख्यानि नियंजिती चेतोओइ। मेरि इ लोपोतेनि चोटमोकलू बाने बादि ओपोताइ माननी संन्तुलन बिगइपोओदी। ई जानवरलू उतलू बागरेतन्कि तकलेनि मदद चेतोओइ। एपडू आई कायलु तटेनि आलीइ ओलटा ओढेकि कोता सोटलकड मुलचाकोतोओइ। उरलट शाकाहारी जानवरलू बाने उपयोगी ओढाइ। ओदू माननी मेका पालू इतोओइ, माननी आलदि पेडा गताउ पेकि उपयोग ओतोओदि। एलगेनि, शाकाहारी जानवरलू चोटमोकलू माननी अन्या जानवरलदि नेडपल ओकटी कडी ओढदी।



मुडू स्तर - मांसाऊ तिनीइ जानवरलू (मांसाहारी): मुडू स्तर आ जानवरलदि ओढदी एइ अन्या जानवरलनि तटोओइ। ईइ मांसाहारी आटोओलू। एलगु पुलि,चितडी,रावनका,पाऊ माननी शिकारी पेटलू। मांसाहारी जानवरलू शाकाहारी जानवरलदि शिकार चेतोओइ। इदि सोतनकि कठोर लागपोओदि, मेरि प्रकृतिदि संतुलनकानि इदि जरूरी ओढादी। मेरि मांसाहारी जानवरलू लोपोतेनि शाकाहारी जानवरलू बाने सानिनि बाढपोताइ माननी चोटमोकलनि सेरपिचेताई। मांसाहारी जानवरलू कमजोर माननी बीमार जानवरदि शिकार चेतोओइ, पाद समूह स्वस्थ ओटोओइ। चेनी मांसाहारी एलगू बाडबकलू,बेलालू माननी पेटलू पुरगालनि ताटोओइ, देनतोनि मेडाकि लाभ ओतोओदी। एलगू मांसाहारी जानवरलू प्रकृतिदि संतुलननी बानिचि पेडतोओइ।

ओकटि सरल माटः इ आनिनि स्तरानि खाद्य नृखल आटोओलू।

दिनामातलबः उदाहरणः पोदू > चोटमोकलू >

मेका > चितडी

1: पोदू चोटमोकलनि ऊजा इतोओदि

2: चोटमोकलनि मेका तटोओदि

3: मेकानि चितडी तटोओदि

मेरि इलोउनची एटो ओकटी ओतू

एटपोतेन आत थिकला इरपोतोओदि।


प्रकृतितोति नाइसू सीख

प्रकृतिया माकी नेडापातोहोन्दिः

1: आनिनि कैलचि ओढानाई

2: ए चिजिनि उताने लोदू

3: संतुलन जरूरी ओढदि



ईच्छा: ईच्छा एक मासिक पत्रिका है जो ओपरोल समाज को पढ़ाई में अगे बढ़ने के लिये मदत करता है। वे ओपरोल समाज के लोगोको ओपरोल भाषा पढ़ने ओर सिखने के लिये मदत करता है। ये बाच्चे ओर जाबान लोगो को ध्यान में राखते हुये बनाया गया है, ता कि वह समाज के बाकि लोगो को भि सिखने के लिये मदत करे। इस पत्रिका कि अधिकतर भाग अनलाईन से लिया गया है। अगर आपको भि कुछ इसमे लिखके प्रकाश करना है तो हामसे सम्पर्क करे।

